



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्) [संख्या 19

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	501-519	3075	भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	285-298	1500	भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत	33-34	975	भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	111-112	
			भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	197-201	975
			स्टोर्स-पंचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

अनुभाग-1

नियुक्ति

21 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 126155/2021/64-1001(001)/3/2021-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये 02 वर्ष की परीक्षा (जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है) पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	नाम (श्री)/अनुक्रमांक/लो0से0आ0 का मेरिट क्रमांक	पिता/माता का नाम (श्री/श्रीमती)	बैच वर्ष	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6
1	अभिषेक चौधरी 152237/08	सोहन लाल/ लता चौधरी	2020	अभिषेक चौधरी, 3202 हिममतगंज कला डंडा नियर साई मंदिर, प्रयागराज, उ0प्र0-211016	बांदा

2—उक्त अधिकारी की परस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के क्रमांक के अनुसार निर्धारित होगी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संवर्ग में उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

3—नवनियुक्त अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार अपेक्षित अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा-पत्र, शैक्षिक तथा आयु संबंधित प्रमाण-पत्र एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र, चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र, जो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से हो जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवनसे परिचित हो, किन्तु सम्बन्धी न हो आदि सुसंगत अभिलेख लेकर निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु विलम्बतम 01 माह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यदि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के समक्ष एवं तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई मानदेय/यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4—उक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किये जा रहे हैं कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के उपरान्त यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, जो सम्बन्धित को सरकारी सेवा में योजित किये जाने में बाधक हो, तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5—उपरोक्त नवनियुक्त अधिकारी जनपद में 15 दिवस तक कार्यालय प्रक्रियाओं/वित्तीय नियमों, सेवा सम्बन्धी नियमों, विभागीय योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमों, फील्ड नियमों व कोषागार से बिल पारित कराने की

प्रक्रिया से लेकर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में समस्त अभिलेखों के रख-रखाव का गहन अध्ययन करने के साथ विभागीय आदेशों एवं नियमों को भली-भांति समझेंगे और 25 दिवस के इस कार्यालय प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय कार्य सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से,  
राधेश्याम,  
विशेष सचिव।

## सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1601/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री तुषार पुत्र श्री राम रतन सिंह का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
116	तुषार/राम रतन सिंह	08-01-1995	37404	मेरठ	तुषार, 969, नियर इण्डियन बैंक, मौ0 काबली गेट, हस्तिनापुर रोड, मेरठ, उ0प्र0-250401	तुषार, 969, नियर इण्डियन बैंक, मौ0 काबली गेट, हस्तिनापुर रोड, मेरठ, उ0प्र0-250401	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र।

सं0 1602/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
117	देवेन्द्र कुमार/ ओम प्रकाश	14-07-1996	74271	पीलीभीत	जोशी टोला, आवास विकास कालोनी, पीलीभीत 96, जोशी टोला पीलीभीत, उ0प्र0-262001	जोशी टोला, आवास विकास कालोनी, पीलीभीत 96, जोशी टोला पीलीभीत, उ0प्र0-262001	



2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1603/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री मुन्ना प्रसाद का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
118	सौरभ कुमार/ मुन्ना प्रसाद	07-07-1994	69681	गाजीपुर	सौरभ कुमार पुत्र मुन्ना प्रसाद भैरोपुर, जेवल, गाजीपुर, उ0प्र0-233306	सौरभ कुमार पुत्र मुन्ना प्रसाद भैरोपुर, जेवल, गाजीपुर, उ0प्र0-233306	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही

औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1604/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री दीपक स्वरूप पुत्र श्री हरी बाबू का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
119	दीपक स्वरूप/ हरी बाबू	05-06-1995	57631	लखनऊ	हरी बाबू, सिद्धार्थ नगर, नियर हाथरस सीटी रेलवे स्टेशन मेंडू रोड, हाथरस, उ0प्र0-204101	हरी बाबू, सिद्धार्थ नगर, नियर हाथरस सीटी रेलवे स्टेशन मेंडू रोड, हाथरस, उ0प्र0-204101	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र।

सं0 1605/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अपूर्वा गुप्ता पुत्री श्री विजय कुमार गुप्ता का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
120	अपूर्वा गुप्ता/ विजय कुमार गुप्ता	30-01-1997	42909	रीवां (मध्य प्रदेश)	विजय कुमार गुप्ता, ग्राम हनुमानपुर, नियर टाटा कालेज, रीवां मध्य प्रदेश- 486440	विजय कुमार गुप्ता, ग्राम हनुमानपुर, नियर टाटा कालेज, रीवां मध्य प्रदेश-486440	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबन्धिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबन्धिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

सं0 1606/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल

संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री पारुल श्रीवास्तव पुत्री श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
121	पारुल श्रीवास्तव/ दीपक कुमार श्रीवास्तव	18-11-1996	12157	लखनऊ	पारुल श्रीवास्तव, 5-62, विपुल खण्ड 5, गोमतीनगर, लखनऊ उ0प्र0-226010	पारुल श्रीवास्तव, 5-62, विपुल खण्ड 5, गोमतीनगर, लखनऊ उ0प्र0-226010	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित

व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1607/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अंशुल गौतम पुत्र श्री रमेश चन्द्र गौतम का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
122	अंशुल गौतम/ रमेश चन्द्र गौतम	18-06-1991	135928	मुजफ्फर नगर	रमेश चन्द्र गौतम, ग्राम-कुटेसरा, मोहल्ला लक्कड़ पट्टी, पो0 कुटेसरा मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251311	रमेश चन्द्र गौतम, 1-6468-3, अशोक बिहार, नियर ओझापुरा पुलिया, आईटीसी रोड, सहारनपुर, उ0प्र0-247001	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1608/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री नयनिका चौधरी पुत्री श्री सत्य नारायण चौधरी का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
123	नयनिका चौधरी/ सत्य नारायण चौधरी	13-02-1996	26656	महाराजगंज	नयनिका चौधरी C/o श्री सत्य नारायण चौधरी, सोहगौरा, पो0 चौक बाजार, महाराजगंज, उ0प्र0-273303	नयनिका चौधरी C/o श्री सत्य नारायण चौधरी, सोहगौरा, पो0 चौक बाजार, महाराजगंज, उ0प्र0-273303	



2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1609/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री पूजा अवस्थी पुत्री श्री उमेश दत्त अवस्थी का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
124	पूजा अवस्थी/ उमेश दत्त अवस्थी	05-07-1993	41437	कानपुर नगर	उमेश दत्त अवस्थी, उमेश दत्त अवस्थी, बंगला नं0 3, बंगला नं0 3, सी0एस0ए0 यूनिवर्सिटी, सी0एस0ए0 यूनिवर्सिटी, कानपुर नगर, उ0प्र0-208002	कानपुर नगर, उ0प्र0-208002	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही

औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा शर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र ।

सं0 1610/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री कैलाश सिंह का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
125	संजीव कुमार/ कैलाश सिंह	05-01-1994	5781	मुरादाबाद	संजीव कुमार, 4बी, 265, बुद्धि बिहार आवास विकास, मुरादाबाद, उ0प्र0- 244001	संजीव कुमार, 4बी, 265, बुद्धि बिहार आवास विकास, मुरादाबाद, उ0प्र0- 244001	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व:घोषणा-पत्र।

सं0 1611/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री प्रीति मिश्रा पुत्री श्री जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
126	प्रीति मिश्रा/ जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा	19-05-1997	9738	रीवां (मध्य प्रदेश)	प्रीति मिश्रा C/o जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा, 477 बाकीया कालोनी, नियर धीरमा नाला रीवां, मध्य प्रदेश- 486001	प्रीति मिश्रा C/o जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा, 477 बार्ड नं0 5 न्यू बाकीया कालोनी, नियर धीरमा नाला धंखा, रीवां, मध्य प्रदेश-486001	



2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे-

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1612/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विवेक भारती पुत्र श्री नन्द लाल भारती का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
127	विवेक भारती/ नन्द लाल भारती	01-07-1994	81645	लखीमपुर खीरी	नन्द लाल भारती, 761, मोहल्ला शिवपुरी, भिंडा पलिया बस स्टैण्ड, लखीमपुर, उ0प्र0-262701	नन्द लाल भारती, 761, मोहल्ला शिवपुरी, भिंडा पलिया बस स्टैण्ड, लखीमपुर, उ0प्र0-262701	आयोग द्वारा सशर्त संस्तुत अनापत्ति प्रमाण- पत्र NOC प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

2-शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी

त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबन्धिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

- [I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
- [II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
- [III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।
- [IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

आज्ञा से,  
फूल चन्द्र,  
संयुक्त सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियाँ

23 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 1815/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 70-सी के निर्माण हेतु ग्राम बिरैली, परगना नरवन, तहसील व जिला चन्दौली में 0.9866 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई०एन०वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 419/सात-स०भू०अ०/2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 से अनुमोदित किया गया है।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

3-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
चन्दौली	चन्दौली	नरवन	बिरैली	2	हेक्टेयर 0.0095
				38	0.0690
				41	0.1455



1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	नरवन	बिरौली	43	0.0081
				49	0.0240
				50	0.0220
				51	0.0320
				52	0.1152
				77	0.0720
				78	0.0072
				80-मि	0.0860
				92	0.0544
				93	0.1319
				94 / 1	0.0106
				94 / 2	0.0746
				95	0.0455
				96	0.0373
				97 / 1	0.0218
				98	0.0100
				99	0.0100
				<b>योग</b>	<b>0.9866</b>

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, चन्दौली।

**NOTIFICATION***April 23, 2022*

(Under sub-section (1) of section 11 of the Act, 2013)

**No. 1815 / आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)** वाराणसी—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Railway Crossing No. 70C under Dedicated Freight Corridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 0.9866 hectares of land is required in the Village Biraili, Pargana Narvan, Tehsil and District Chandauli.

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd., Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 419/सात-स०भू०अ०/2022 Dt. 08.04.2022.

2. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka (8)/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administration for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

**SCHEDULE**

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Chandauli	Chandauli	Narvan	Biraili	2	<i>Hectare</i> 0.0095
				38	0.0690
				41	0.1455
				43	0.0081
				49	0.0240
				50	0.0220
				51	0.0320
				52	0.1152
				77	0.0720
				78	0.0072

1	2	3	4	5	6
Chandauli	Chandauli	Narvan	Biraili	80-मि	<i>Hectare</i> 0.0860
				92	0.0544
				93	0.1319
				94 / 1	0.0106
				94 / 2	0.0746
				95	0.0455
				96	0.0373
				97 / 1	0.0218
				98	0.0100
				99	0.0100
				<b>Total. .</b>	<b>0.9866</b>

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Chandauli.

7. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

**NOTE**—A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,  
Collector, Chandauli.

सं० 1816/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 74सी के निर्माण हेतु ग्राम जगदीशपुर, भगवानपुर एवं रमऊपुर, परगना मझवार, तहसील व जिला चन्दौली में 1.1684 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1—सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई०एन०वी० डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि०, लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 473/सात-स०भू०अ०/2022 दिनांक 22 अप्रैल, 2022 से अनुमोदित किया गया है।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में 6 परिवार विस्थापित हो रहे हैं।

3-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	जगदीशपुर		हेक्टेयर	
					0.0744	
					53	0.0121
					54-मि	0.0438
					56-मि	0.0140
					61	0.0080
					62	0.0120
					63-मि	0.0220
					64	0.0320
					65-मि	0.1800
					66	0.1200
					68	0.2800
					70	0.0880
					71	0.0740
					योग. .	0.9603
				भगवानपुर	183	0.0228
			184		0.0296	
			185		0.0254	
				योग. .	0.0778	
			रमऊपुर	3	0.1303	
				कुल योग	1.1684	

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, चन्दौली।

**No. 1816 / आठ-वि०भू०अ०(सं०सं०) वाराणसी**—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Railway Crossing No. 74C under Dedicated Freight Corridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 1.1684 hectares of land is required in the Village Jagdishpur, Bhagwanpur and Ramaupur, Pargana Majhwar, Tehsil and District Chandauli.

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd., Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 473 / सात-स०भू०अ० / 2022 Dated 22-04-2022

2. 6 families are getting displaced due to land acquisition for this scheme.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka (8)/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administration for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

#### SCHEDULE

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Jagdishpur	32M	0.0744
				53	0.0121
				54M	0.0438
				56M	0.0140



1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Jagdishpur	61	0.0080
				62	0.0120
				63-M	0.0220
				64	0.0320
				65-M	0.1800
				66	0.1200
				68	0.2800
				70	0.0880
				71	0.0740
				<b>Total. .</b>	<b>0.9603</b>
			Bhagwanpur	183	0.0228
				184	0.0296
				185	0.0254
				<b>Total. .</b>	<b>0.0778</b>
			Ramaupur	3	0.1303
				<b>Grand Total..</b>	<b>1.1684</b>

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Chandauli.

7. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

**NOTE:** A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Chandauli.

सं0 1817/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है कि जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 75सी के निर्माण हेतु ग्राम लीलापुर, दरपीपुर व सिरसी परगना मझवार, तहसील व जिला चन्दौली 2.0820 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई0एन0वी0 डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि0, लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 318/सात-स0भू0अ0/2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 से अनुमोदित किया गया है।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

3-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

#### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	मूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	लीलापुर		हेक्टेयर
				1	0.006
				6	0.052
				7	0.064
				8	0.095
				9	0.068
				12	0.016
				16	0.063
				27	0.020
				29	0.072
				32	0.088
				38	0.116
				39	0.125
				61	0.009
				62	0.019

1	2	3	4	5	6
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	लीलापुर	63	हेक्टेयर 0.163
				65	0.031
				66	0.051
				73	0.020
				79	0.009
				<b>योग. .</b>	<b>1.0870</b>
			दरपीपुर	52-मि	0.290
				53	0.057
				54	0.060
				55	0.142
				56	0.089
				57	0.088
				68-मि	0.151
				<b>योग. .</b>	<b>0.8770</b>
			सीरसी	348	0.082
				487	0.036
				<b>योग. .</b>	<b>0.1180</b>
				<b>कुल योग. .</b>	<b>2.0820</b>

5—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7—अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, चन्दौली।

**No. 1817 / आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)** वाराणसी –Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of construction of Sampar No. 75C under Dadicated Freat Coridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 2.0820 hectares of land is required in the Village Lilapur, Darpipur and Sirsi, Pargana Majhwar, Tehsil and District Chandauli.

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd., Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 318 / सात-स०भू०अ० / 2022 Dated 25.03.2022

2. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka (8)/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administration for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

#### SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Lilapur	1	<i>Hectare</i> 0.006
				6	0.052
				7	0.064
				8	0.095
				9	0.068
				12	0.016
				16	0.063
				27	0.020
				29	0.072
				32	0.088
				38	0.116
				39	0.125
				61	0.009

1	2	3	4	5	6
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Lilapur	62	<i>Hectare</i> 0.019
				63	0.163
				65	0.031
				66	0.051
				73	0.020
				79	0.009
				<b>Total. .</b>	<b>1.0870</b>
			Darpipur	52-मि	0.290
				53	0.057
				54	0.060
				55	0.142
				56	0.089
				57	0.088
				68मि	0.151
				<b>Total. .</b>	<b>0.8770</b>
			Sirsi	348	0.082
				487	0.036
				<b>Total. .</b>	<b>0.1180</b>
				<b>Grand Total. .</b>	<b>2.0820</b>

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Chandauli.

7. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

**NOTE:** A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Chandauli.



सं0 1818/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद चन्दौली के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, जनपद चन्दौली में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पार संख्या 78सी के निर्माण हेतु ग्राम बनौली खुर्द, कटशिला एवं हिनाता उर्फ जगदीश सराय, परगना मझवार, तहसील व जिला चन्दौली में 0.9696 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

1-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई0एन0वी0 डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा पत्र संख्या 349/सात-स0भू0अ0/2022 दिनांक 30 मार्च, 2022 से अनुमोदित किया गया है।

2-भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

3-उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	बनौली खुर्द	231	0.0180
				233	0.0270
				234	0.0270
				235	0.0280
				236	0.0260
				237	0.0584
				376	0.0035
				380	0.0250
				391	0.3155
				391/456	0.0076
				<b>योग.</b>	<b>0.5360</b>
			कटशिला	94	0.0581
				97	0.1375
				<b>योग.</b>	<b>0.1956</b>

1	2	3	4	5	6
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	हिनौता (जगदीश सराय)	8	हेक्टेयर 0.0800
				9	0.0500
				11	0.0600
				12	0.0480
				<b>योग.</b>	<b>0.2380</b>
				<b>कुल योग.</b>	<b>0.9696</b>

5-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, चन्दौली को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7-अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, चन्दौली के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),  
जिलाधिकारी, चन्दौली।

**No. 1818 / आठ-वि0मू0अ0अ0(सं0सं0) वाराणसी**—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of construction of Railway Crossing No. 78C under Dedicated Freight Corridor, District Chandauli is of the opinion that a total of 0.9696 hectares of land is required in the Village Banauli Khurd, Katshila and Hinauta Urf Jagdish Sarai, Pargana Majhwar, Tehsil and District Chandauli.

1. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd., Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Letter No. 349/सात-स0मू0अ0/2022 Dt. 30.03.2022.

2. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

3. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka (8)/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administration for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate, Tehsil Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

**SCHEDULE**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Banauli Khurd	231	0.0180
				233	0.0270
				234	0.0270
				235	0.0280
				236	0.0260
				237	0.0584
				376	0.0035
				380	0.0250
				391	0.3155
				391 / 456	0.0076
				<b>TOTAL..</b>	<b>0.5360</b>
			Katshila	94	0.0581
				97	0.1375
				<b>TOTAL..</b>	<b>0.1956</b>
			Hinauta Urf Jagdishsrai	8	0.0800
				9	0.0500
				11	0.0600
				12	0.0480
				<b>TOTAL..</b>	<b>0.2380</b>
				<b>GRAND TOTAL..</b>	<b>0.9696</b>

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector, District Chandauli for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Chandauli.

7. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Chandauli shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed.

**NOTE:** A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Chandauli.

(Sd.) ILLEGIBLE,  
Collector, Chandauli.



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

### भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,  
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

### खण्ड-घ-जिला पंचायत

30 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 3102/23-45/2017-उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, मौरम एवं गिट्टी लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले से बाहर भेजने व संग्रह करने पर बैलगाड़ी, नाव ट्रैक्टर व ट्रक आदि पर शुल्क लगाने की उपविधियां बनायी गयी थी। जो आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज की पुष्टि के पश्चात् उ०प्र० गजट दिनांक 23 मई, 1998 व संशोधित उपविधि उ०प्र० गजट दिनांक 18 दिसम्बर, 1999 एवं संशोधित उपविधि संख्या 3933/23-24/2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 के अंक में प्रकाशित हुयी थी। यह उपविधि जिला पंचायत में प्रकाशन की तिथि से लागू हो गयी थी। इस उपविधि में जिला पंचायत, फतेहपुर की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक संशोधन किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 242 (4) के अन्तर्गत आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत तदनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संशोधन उ०प्र० गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जो निम्नवत् है-

### संशोधित उपविधि

क्र० सं०	परिवहन माध्यम	वर्तमान में वसूली हेतु प्रभावी दरें	संशोधित दरें (निदेशक भूतत्व एवं खनिज के पत्र संख्या 1226/एम०-1ए158/2017 (ई-रवन्ना) दिनांक 24-10-2019 के अनुसार निर्धारित लोडिंग मात्रा पर)
1	2	3	4
		रु०	रु०
1	पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी	10 प्रति फेरी	10 प्रति फेरी

1	2	3	4
		रु0	रु0
2	मानव चालित नाव	20 प्रति फेरी	40 प्रति फेरी
3	ट्रैक्टर ट्राली	50 प्रति फेरी	100 प्रति फेरी
4	ट्रक—		
	(क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स)	100 प्रति फेरी	200 प्रति फेरी
	(ख) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का)	150 प्रति फेरी	300 प्रति फेरी
	(ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का)	200 प्रति फेरी	400 प्रति फेरी

उपविधि की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

संजय गोयल,  
मण्डलायुक्त,  
प्रयागराज।





# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

08 अप्रैल, 2022 ई०

नई दिल्ली, दिनांक

18 चैत्र, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-लो०स०/16/2019(इला०)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 16 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 18 फरवरी, 2022 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,  
अमित कुमार,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

8<sup>th</sup> April, 2022

New Delhi, dated the

18<sup>th</sup> Chaitra, 1944 (Saka).

### NOTIFICATION

**No. 82/UP-HP/16/2019 (Alld.)**—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 18<sup>th</sup> February, 2022 of the High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 16 of 2019.

By order,  
AMIT KUMAR,  
Secretary,  
Election Commission of India.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****Court No. - 43****Case :-** ELECTION PETITION No. 16 of 2019**Petitioner :-** Hazi Mohammad Yakub**Respondent :-** Shri Rajendra Agrawal**Counsel for Petitioner :-** In Person, Ravi Shankar Prasad (Senior Adv.), Tapan Kumar Mishra**Counsel for Respondent :-** Radha Kant Ojha (Senior Adv.) Shivendu Ojha**Hon'ble Vivek Kumar Birla, J.**

Sri Shivendu Ojha, learned counsel for the respondent is present.

On 10-12-2021 following order was passed:-

“When this matter was taken up Sri Mithlesh Kumar Rai, learned counsel informed that Sri Tapan Kumar Mishra, learned counsel for the petitioner has died.

Accordingly, office is directed to issue notice to the petitioner to engage another counsel.

List on the date fixed by the office.

Sri Mithlesh Kumar Rai, learned counsel in all fairness submitted that he will inform learned counsel appearing for the opposite party about this order in writing.”

Order dated 10-12-2021 indicates that the notices were issued to the election petitioner to engage another counsel fixing 18-02-2022.

Perusal of office report dated 18-02-2022 indicates that the notices were sent to the petitioner by registered post A.D. but neither A.D. nor undelivered notice has been returned back and no one has put in appearance.

The election petition is accordingly dismissed for want of prosecution.

**Order Date :-** 18-02-2022

Lalit Shukla

(Sd.) VIVEK KUMAR BIRLA J.

By order,  
AMIT KUMAR,  
Secretary,  
Election Commission of India.

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 मई, 2022 ई० (बैशाख 17, 1944 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 32/एल०ए०सी०/एच०क्यू०

15 अप्रैल, 2022 ई०

### नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(उ०प्र० अधिनियम, संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने अयोध्या नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास एवं गृह स्थान एवं बाजार 'पूरक' योजना अयोध्या" बनायी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं—

**उत्तर**—खसरा संख्या 806, 807, 808, 893 भाग, 1017 भाग, 1018 भाग, 1020 भाग, 1021 भाग, 1021/1602 भाग एवं 1027 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना—हवेली अवध, तहसील—सदर, जिला—अयोध्या।

**पूरब**—खसरा संख्या 1034, 1033, 1028, 1090, 1091, 1092, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1054 एवं 1052 भाग, ग्राम मांझा बरहटा, परगना—हवेली अवध, तहसील—सदर, जिला—अयोध्या एवं सरयू नदी तटबंध (खसरा सं०-3), ग्राम—मांझा तिहुरा, परगना—हवेली अवध, तहसील—सदर, जिला—अयोध्या।

**दक्षिण**—सरयू नदी तटबंध (खसरा सं०-3), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/ दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित

योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 3, 5, 6, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 188, 189, 216, 217, 218, 809 एवं 810 ग्राम मांझा तिहुरा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या व खसरा संख्या 1289, 1293, 1294, 1295, 1297, 1309, 1302, 1306, 1402 भाग, 1542 भाग एवं 1541 ग्राम-मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या।

**पश्चिम**—उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या 2315/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या 1536 भाग, 1535 भाग, 1529 भाग, 1528 भाग, 1525 भाग, 1523 भाग, 1522 भाग, 1404 भाग, 1405 भाग, 1401 भाग, 1402 भाग, 1321 भाग, 1322 भाग, 1323 भाग, 1334 भाग, 1330 भाग, 1326 भाग, 1332 भाग, 1397 भाग, 1356 भाग, 1355 भाग, 1354 भाग, 1348 भाग, 1350 भाग, 1351 भाग) व खसरा संख्या 936 भाग, 1010 भाग, 1009 भाग, 1008 भाग, 1006 भाग, 1013 भाग, 1001 भाग, 988 भाग, 1000 भाग, 999 भाग, 996 भाग एवं 893 भाग, ग्राम-मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र कार्यालय, आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में ली जायेंगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

अजय चौहान,  
आवास आयुक्त।

#### U. P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

No. 32/L. A. C./H. Q.

April 15, 2022

#### NOTICE

[Notice under section 28 of the U. P. Avas Evam Vikas Parishad

Adhiniyam, 1965 (U. P. Act no. 1 of 1966)]

The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called "Bhumi Vikas Grihsthan Evam Bazar "Purak" Yojana Ayodhya" to solve the housing problem of the Ayodhya City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows :



**North**—Khasra no. 806, 807, 808, 893 Part, 1017 Part, 1018 Part, 1020 Part, 1021 Part, 1021/1602 Part and 1027 Part, Village-Manjha Barhata, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil-Sadar, District-Ayodhya.

**East**—Khasra no. 1034, 1033, 1028, 1090, 1091, 1092, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1054 and 1052 Part, Village-Manjha Barhata, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil-Sadar, District-Ayodhya and Saryu River Embankment (Khasra no.-3) Village-Manjha Tihura, Pargana-Haveli Awadh, Tahsil-Sadar, District-Ayodhya.

**South**—Saryu River Embankment (Khasra no.-3) North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana, Ayodhya Notified *vide* U.P. Housing & Development Board (Land Acquisition Section) Letter no. 2315/LAC/HQ/Dated 09-10-2020 (Khasra no. 3, 5, 6, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 188, 189, 216, 217, 218, 809 and 810 Village-Manjha Tihura, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil-Sadar, District-Ayodhya and Khasra no. 1289, 1293, 1294, 1295, 1297, 1309, 1302, 1306, 1402 Part, 1542 Part, and 1541 Village-Manjha Barhata, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil-Sadar, District-Ayodhya.

**West**—North Boundary of Bhoomi Vikas Grihasthan Evam Bazar Yojana, Ayodhya Notified *vide* U. P. Housing & Development Board (Land Acquisition Section) Letter no. 2315/LAC/HQ/Dated 09-10-2020 (Khasra no. 1536 Part, 1535 Part, 1529 Part, 1528 Part, 1525 Part, 1523 Part, 1522 Part, 1404 Part, 1405 Part, 1401 Part, 1402 Part, 1321 Part, 1322 Part, 1323 Part, 1334 Part, 1330 Part, 1326 Part, 1332 Part, 1397 Part, 1356 Part, 1355 Part, 1354 Part, 1348 Part, 1350 Part, 1351 Part) and Khasra no. 936 Part, 1010 Part, 1009 Part, 1008 Part, 1006 Part, 1013 Part, 1001 Part, 988 Part, 1000 Part, 999 Part, 996 Part, and 893 Part, Village-Manjha Barhata, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil Sadar, District-Ayodhya.

The details of land falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Ayodhya-01, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri, Ayodhya on any working day between 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Ayodhya-01 U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 5/16/22 Chadakyapuri, Ayodhya within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh Gazette of this notice. After passing the due date no objection shall be considered. Correct name and Land/Building/Name of Village/Khasra Number/Area of Land and all other details of objectioner comprised in scheme should be mentioned clearly.

AJAY CHAUHAN,  
Housing Commissioner.



**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सिंह एसोसिएट्स पता-बी 326 डिफेन्स एन्क्लेव सरधना रोड, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2010 के अनुसार फर्म में चार पार्टनर थे (1) रोहित चौधरी पुत्र स्व० श्री कृष्ण पाल सिंह (2) वीर पाल सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह (3) अमित कुमार पुत्र श्री सोहन पाल सिंह (4) सुखपाल सिंह पुत्र श्री मूंगा सिंह थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनाम डीड दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के अनुसार फर्म में दिनांक 02 मार्च, 2021 में साझीदार नं०-4 सुखपाल सिंह पुत्र श्री मूंगा सिंह जी का निधन हो गया है व साझीदारों की आपसी सहमती से फर्म में क्रमशः तीन साझेदार हो गये हैं। (1) रोहित चौधरी पुत्र स्व० श्री कृष्ण पाल सिंह (2) वीर पाल सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह (3) अमित कुमार पुत्र श्री सोहन पाल सिंह साझेदार हो गये हैं।

रोहित चौधरी,  
साझेदार।

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कोहली ब्रदर्स, पता चारबाग, निकट सुदर्शन टाकीज, लखनऊ-226004, पंजीयन संख्या-197865, दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 के वर्तमान व्यापार का पता चारबाग, निकट सुदर्शन टाकीज, लखनऊ, उ०प्र० है जो कि दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से बदल गया है जो कि अब जुनाबगंज, कानपुर रोड, लखनऊ, पिनकोड-226401 हो गया है जिस पर किसी साझेदार को कोई आपत्ति नहीं है।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण की गयी हैं।

ओंकार सिंह कोहली,  
साझेदार

फर्म-मेसर्स कोहली ब्रदर्स,  
व्यापार का नया पता-जुनाबगंज, कानपुर रोड,  
लखनऊ, पिनकोड-226401।

**NOTICE**

It is notified that from date 07 December, 2021 M/s. CHANDRA TECHNO BUILD (INDIA) LLP having its Registered Office at 17/04, NIKHILESH PALACE, ASHOK MARG, LUCKNOW-226001, through its designated Partner Mr. Alok Chandra S/o Late Naresh Chandra, R/o 504, Chandra Tower, 6, Jopling Road, Lucknow has joined the Firm-M/s. RAJKUMAR SHRAWAN KUMAR OIL & RICE MILLS, REGISTERD OFFICE ADDRESS-11/11A, TALKATORA ROAD, LUCKNOW, (Regd. no.199595, Dated-03/03/2015). That I have no objection for new Partner.

That I also certify that all the legal formalities for the amendment in the firm have been completed by me.

Abhinandan Kumar Jain,  
Partner,  
M/s. Rajkumar Shrawan Kumar,  
Oil & Rice mills,  
Registered office Address-11/11A,  
Talkatora Road, Lucknow.

**NOTICE**

Be it known to all that Mr. Onkar Nath Bhargava, Partner of M/s. Bhargava Engineering Corporation, Prabhu Town, Rae Bareilly has voluntarily retired from the said firm with effect from 31 March, 2022 midnight. Now the said firm is constituted by the remaining partners viz, Mr. Atul Bhargava, Mrs. Sandhya Bhargava, Mr. Vivek Bhargava as per the partnership deed dated 01 April, 2022.

Atul Bhargava  
Partner.

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राज कन्सट्रक्शन, डी०एस०ओ० कम्पाउण्ड कोर्ट रोड सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक फर्म

सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर द्वारा दिनांक 21 जून, 2006 को हुआ था। उक्त फर्म में दिनांक 13 अगस्त, 2020 की डीड के अनुसार फर्म नं0 07 दिनांक 02 जनवरी, 2021 को उक्त सहायक निबन्धक कार्यालय सहारनपुर में पंजीकृत हुआ। उस समय फर्म में राजकुमार त्यागी, अनूप सिंह व सन्नी अरोड़ा पार्टनर रह गये थे। फर्म में दिनांक 23 जून, 2021 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म में पार्टनर सन्नी अरोड़ा रिटायर हो गये थे। उसी दिनांक को फर्म में विराट चौधरी नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये थे। तथा दिनांक 26 जून, 2021 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म में अनूप सिंह रिटायर हो गये थे। अब वर्तमान में फर्म में राजकुमार त्यागी व विराट चौधरी पार्टनर रह गये हैं।

राजकुमार त्यागी,  
पार्टनर

राज कन्सल्टेशन,  
डी0एस0ओ0 कम्पाउण्ड कोर्ट रोड सहारनपुर।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-माँ वैष्णो कोल्ड स्टोरेज, ठण्डी सड़क फर्रुखाबाद की भागीदारी डीड दिनांक 15 जून, 1999 के अनुसार फर्म में श्री अरुणा कुमार रस्तोगी, श्रीमती कुमुद रस्तोगी, श्री अशोक कुमार रस्तोगी, श्रीमती रीता रस्तोगी साझीदार थे। साझीदारी डीड दिनांक 23 जनवरी, 2006 के अनुसार फर्म के भागीदार श्री अरुण कुमार रस्तोगी की मृत्यु दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 को हो गयी है तथा साझीदारी में श्री अनन्त रस्तोगी को शामिल किया गया। भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के अनुसार फर्म की साझीदार श्रीमती कुमुद रस्तोगी का स्वर्गवास दिनांक 06 मई, 2021 को हो गया है तथा संशोधित डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को श्रीमती शिवाली रस्तोगी व श्री राम जी रस्तोगी को शामिल किया गया है। वर्तमान में फर्म में श्री अशोक कुमार रस्तोगी, श्रीमती रीता रस्तोगी, श्री अनन्त रस्तोगी, श्रीमती शिवाली रस्तोगी, श्री राम जी रस्तोगी साझीदार हैं। फर्म की पंजीकरण सं0 K-6743 पर दिनांक 16 नवम्बर, 1999 को पंजीकृत है।

अशोक कुमार रस्तोगी,  
पार्टनर।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रीत फिलिंग स्टेशन, ग्राम-भुता, तहसील-फरीदपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या बी-12277 है फर्म दिनांक 18 जून, 2010 से निरन्तर सुचारु रूप कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में साझेदारों की सहमति से दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को एक नया साझेदार गौरव शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी-140 मेन ग्रीन पार्क कॉलोनी, जिला बरेली को उक्त फर्म में साझेदार बनाया गया व दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को परमजीत सिंह पुत्र श्री अजैब सिंह निवासी निकट जरनल पोस्ट आफिस 193 इ सिविल लाइन्स, जिला बरेली स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गये। वर्तमान में फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः 1-रूपम पाठक पत्नी श्री अवनीश कुमार पाठक मकान नं0 104, विश्वनाथ पुरम बदायूँ रोड बरेली, उ0प्र0, 2-गौरव शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी 140 मेन ग्रीन पार्क कॉलोनी, जिला बरेली है।

रूपम पाठक,  
साझेदार  
मेसर्स प्रीत फिलिंग स्टेशन,  
ग्राम-भुता, तहसील-फरीदपुर  
जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

मेरी एलआईसी शाखा सिविल लाइन्स प्रयागराज में पालिसी संख्या 312500839 में मेरा नाम "गंगा पटेल" दर्ज है जो कि ये मेरे पुकारने वाला नाम है, वास्तविक व सही नाम "मुस्कान पटेल" है। इस प्रकार "गंगा पटेल" व "मुस्कान पटेल" नाम एक ही महिला का है। अब मुझे आगे से "मुस्कान पटेल" के नाम से जाना, पहचाना व समझा जाये।

मुस्कान पटेल,  
पुत्री स्व0 राज कुमार पटेल,  
नि0 252ए/174ए, आजाद नगर,  
साउथ मलाका, प्रयागराज।